

तेरे दरबार में सर झुकाती रहूं,

दोहा रुतबा ये मेरे सर को,  
तेरे दर से मिला है,  
हालांकि ये सर भी,  
तेरे दर से मिला है।  
औरो को जो मिला है,  
मुक्कदर से मिला है,  
मुझको मुक्कदर भी श्याम,  
तेरे दर से मिला है।

तेरे दरबार में सर झुकाती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं ॥

तर्ज एक तू जो मिला।

तेरे चरणों की सेवा,  
और भक्ति मिले,  
तेरे चरणों में रहकर,  
ही मुक्ति मिले,  
मन के मंदिर में,  
तुझको सजाती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं ॥

नाम से तेरे मुझको,  
है शोहरत मिली,  
मुझको दौलत भी,  
तेरी बदौलत मिली,  
कर कृपा मान,  
सम्मान पाती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं ॥

आरजू दिल की चौखट,  
ना छूटे कभी,  
तार तुझसे जुड़ा,  
वो ना टूटे कभी,  
सांसे जब तक चले,  
भजन गाती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं ॥

तेरे दरबार में सर झुकाती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं,  
तू बुलाता रहे और मैं आती रहूं ॥

Singer Sumitra Banerjee



# Bharat Temples

Complete Bhajans Collections - Download Free Android App

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.bhajans>

Facebook: <https://www.facebook.com/bharattemples/>

Telegram: <https://t.me/bharattemples>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC24oJCxZjyhhKzSUD-Lt9Tw>